



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 1984/चैत्र 24, 1906
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 1984/CHAITRA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1984

का.आ. 307(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 157 (अ), तारीख 12 मार्च, 1984 के अनुसार में, मेघालय राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 12 अप्रैल, 1984 को पद से निवृत्त हो गया था, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, मेघालय राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

क्रम. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री जेरलाई इ. तारियंग

[फा. सं. 13(2)/84-वि. 2]

र. वेंकट सूर्य पेरि शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1984

S.O. 307(E).—Whereas election has been held in pursuance of notification No. S.O. 157(E), dated the 12th March, 1984, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya who retired on 12th April, 1984, on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya is hereby notified for general information :—

Serial Number	Name of Member
1.	Shri Jerlie E. Tariang

[F. No. 13(2)/84-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.